

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644

,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या :पीआरओ /2062020

दिनांक: अक्टूबर/31 ,2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 31-10-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन वाराणसी में लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलायी गयी।

जौनपुर निर्वाचन ड्यूटी में लगे पुलिस बल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा ब्रीफ किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रवाना किया गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 का जनपद वाराणसी आगमन/भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण को ब्रीफ किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 31.10.2020 को थाना सारनाथ के उ 0नि0हर्ष मणि तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्रवाहन में/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति , ग्राम सलारपुर रोड पोखरा के पास मौजूद थे इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि सतरंगी तिराहा के पास चोरी के मोबाइल के साथ 02व्यक्ति मौजूद है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उद्वारा 0नि0 मय हमराह पुलिस बलके सतरंगी तिराहे पर पहुँचकर उक्त दोनों ब्यक्तियों पकड़ लिया गयाजिनके , अदद सिम बरामद हुआ जो सम्बन्धित 03 अदद चोरी की मोबाइल व 02 कब्जे सेमु 0स0अ0 628/457-धारा 2020/ 380भादवि से है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण आशीष कुमार व गोपी यादव को समय करीब 08.बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक 10 कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- आशीष कुमार S/O करिया प्रसाद R/O खालिसपुर कपिलधारा, थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।
- गोपी यादव S/O प्रेमलाल यादव R/O सलारपुर, थाना सारनाथ वाराणसी औसत उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद मोबाइल vivo,
- 03 अदद सिम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 हर्ष मणि तिवारी व का0 मिथुन कुमार थाना सारनाथ वाराणसी ।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 207/2020

दिनांक: अक्टूबर3 ,1/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक "31.10.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से /आडियो/पम्पलेट/बैनर/) सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 44 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-1191 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से / सम्बन्धित358 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 42 स्थानों पर भ्रमणचेकिंग करते / हुए कुल37 महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा/31 मनचलों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 31-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल 09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 265 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा रु0-9, -/600जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 959 वाहनों का चालान, 07 वाहन को सीज तथा 156 वाहनों से रु0-1,66,400/-समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।